

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 1 फरवरी को दूसरे सालाना बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (25 जनवरी, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का मशहूर, बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program), 1 फरवरी को दूसरे वर्ष के लिए दुबारा शुरू हो रहा है।

यह ईको-फ्रेंडली पहलकदमी, हिस्सा लेने वालों को, अपने खुद के बैकयार्ड गार्डन में सब्जियां आदि उगाने के लिए मुफ्त मिट्टी, बीज और लाभदायक सुझाव देकर, हमारे शहर में फूड सिक्योरिटी में सहयोग करने में मदद करती है। इस वर्ष का प्रोग्राम, केवल नए भागीदारों के लिए है। साथ ही उनके लिए भी है, जिन्हें 2020 में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला।

बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, निवासियों को अपने खुद के घरों में सब्जियां आदि उगाने और अपनी घर में उगी सब्जियों को लोकल फूड बैंकों और संगठनों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यह प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी पर, [मेयर की कोविड-19 सोशल सपोर्ट टास्क फोर्स के \(Mayor's COVID-19 Social Support Task Force's\)](#) फोकस की भी हिमायत करता है। यह सिटी की, ग्रीन सिटी (Green City) बनने की प्राथमिकता की भी पुष्टि करता है और निवासियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है।

निवासी, सोमवार, 1 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू करते हुए, www.brampton.ca/backyardgarden पर मुफ्त मिट्टी और बीज प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इस वर्ष के बैकयार्ड गार्डनों की फोटो, बागबानी करने के लिए सुझाव, ट्यूटोरियल और संसाधन भी, वेब पेज पर उपलब्ध होंगे। निवासियों को, अपने गार्डनों को सोशल मीडिया पर साझे करने के लिए, हैशटैग #GardensofBrampton उपयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है।

इस वर्ष, यह प्रोग्राम पूरे गर्व के साथ, स्कॉट्स (Scotts) द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। सिटी, इस प्रोग्राम के सभी समर्थकों का धन्यवाद करती है, जिनमें शामिल हैं, मैटमी होम्स (Mattamy Homes), पैराडाइज डिवेलपमेंट्स (Paradise Developments), फील्डगेट डिवेलपमेंट्स (Fieldgate Developments), टी.ए.सी.सी. डिवेलपमेंट्स (TACC Developments) और ग्रेट गल्फ (Great Gulf)।

बैकयार्ड गार्डन क्लब ई-न्यूजलेटर

इस वर्ष नए, हमारे मासिक बैकयार्ड गार्डन क्लब ई-न्यूजलेटर से जुड़ें। यह बागबानी करने के शौकीनों के लिए शुरू किया गया है। इसके मेम्बर्स को, बागबानी संबंधी जानकारी वाला मासिक ई-न्यूजलेटर, सवाल भेजने के अवसर, बागबानी संबंधी सलाह और विशेषज्ञों तथा ब्रैम्पटन हॉर्टिकल्चरल सोसायटी (Brampton Horticultural Society) जैसे, सामुदायिक साझेदारों से सहायता, खास ऑफर आदि मिलेंगे। क्लब के लिए रजिस्टर करने हेतु, www.brampton.ca/backyardgarden पर जाएं।

पृष्ठभूमि

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, 2020 में बहुत ही सफल शुरुआती वर्ष रहा था। अप्रैल से अक्टूबर तक, जरूरतमंद निवासियों के लिए, 10,000 पौंड से अधिक सब्जियां, लोकल फूड बैंकों और सामुदायिक संगठनों को दान की गईं; इनमें शामिल हैं, नाइट्स टेबल (Knights Table), रीजेनरेशन (Regeneration), खालसा एड (Khalsa Aid) और यूनाइटेड सिक्स (United Sikhs)। यह पहलकदमी, कैंनेडा में कोविड-19 (COVID-19) को असरों को कम करने के लिए शुरू की गई, इस प्रकार की पहली पहलकदमी थी।

कम्युनिटी गार्डन्स (Community Gardens) प्रोग्राम, [ब्रैम्पटन गो ग्रीन एन्वायरनमेंटल मास्टर प्लान \(Brampton Grow Green Environmental Master Plan\)](#) के लक्ष्यों का विस्तार करता है, जिसने सिटी के लिए अवसर के तौर पर शहरी खेती का हवाला दिया।

हवाले

“बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, पिछले वर्ष ब्रैम्पटन में बहुत ज्यादा सफल रहा था। मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि, प्रोग्राम 1 फरवरी को दुबारा शुरू होगा। यह प्रोग्राम हमारे समुदाय को साथ लाता है, हिस्सा लेने वालों को सक्रिय रखता है और जरूरतमंद निवासियों को भोजन संबंधी सहायता प्रदान करता है। हमें काउंसलर विलैन्स की लीडरशिप में, दूसरे वर्ष इस पहलकदमी की हिमायत करने पर गर्व है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पिछले वर्ष बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर, हजारों निवासियों ने मुफ्त बीज और मिट्टी प्राप्त की थी और जरूरतमंद निवासियों के लिए 10,000 पौंड से अधिक सब्जियां प्रदान की थीं। इस वर्ष, प्रोग्राम नए भागीदारों के लिए खुला है – मतलब, अन्य निवासियों को भी इस शानदार पहलकदमी में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। बागबानी करें, आउटडोर आनंद लें और इस वर्ष दान करें!”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; चेयर, बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“2020 में बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम के शुरू होने और इसके लिए शानदार सहायता मिलने पर, ब्रैम्पटन सकारात्मक तौर पर प्रभावित हुआ था। सिटी का स्टाफ, 2021 के प्रोग्राम की शुरुआत के लिए उत्साहित है। साइन अप करने और अपने मुफ्त बीजों तथा मिट्टी के लिए, www.brampton.ca/backyardgarden को बुकमार्क करना न भूलें और इस महत्वपूर्ण ग्रीन पहलकदमी का हिस्सा बनें।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca